



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 285) पटना, शुक्रवार, 8 अप्रील 2016

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना
30 मार्च 2016

सं0 वन/पर्या०-29/1998-179 (ई0)/प०व०—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा-64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के परामर्श से, बिहार राज्य (जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली, 1984 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन

बिहार राज्य जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) नियमावली, 1984 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-3 के उप नियम (2) की अनुसूची निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

सारणी

(क) स्थानीय निकाय

सहमति शुल्क (रुपये में) पाँच वर्षों के लिए

(i)	नगर निगम	20000
(ii)	नगर परिषद	10000
(iii)	नगर पंचायत	5000

(ख) उद्योग

सहमति शुल्क (रुपये में) (पाँच वर्षों के लिए)

(i)	25 लाख रुपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	9000
(ii)	25 लाख रुपये से उपर परन्तु 5 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	35000
(iii)	5 करोड़ रुपये से उपर परन्तु 10 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	60000

(iv)	10 करोड़ रुपये से उपर परन्तु 50 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	90000
(v)	50 करोड़ रुपये से उपर के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	225000

टिप्पणी:—

- (1) सारणी में विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाईयों के पूँजी में वैसे सभी पूँजी निवेश शामिल हैं जो भूमि, मकान, प्लान्ट और मशीनरी जैसे स्थायी आस्तियों में किये गये हों।
- (2) ऐसे सहमति आवेदन, जो बिना विहित सहमति शुल्क के दिया गया हो, पर्वद द्वारा ग्रहण नहीं किये जायेंगे।
- (3) सहमति शुल्क का भुगतान सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जायेगी, जो पटना में देय होगी।

यह अधिसूचना बिहार सरकार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रत्नेश झा,
सरकार के उप-सचिव।

The 30th March 2016

No. Van/Parya-29/1998 -179 (E) /E.&F.—In exercise of the powers conferred by Sec.-64 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (No-6 of 1974), the State Government after consultation With the Bihar State Pollution Control Board, hereby makes the following amendments in the Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent fee) Bihar Rules, 1984 (as amended time to time):-

Amendment

Schedule of Sub Rule (2) of Rule-3 Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent fee) Bihar Rules, 1984 (as amended time to time) Shall be substituted by the following:-

Schedule

(A)	Local Body	Consent Fee (Rs.) (for Five years)
(i)	Municipal corporation	20000
(ii)	Municipal Council	10000
(iii)	Nagar Panchayat	5000

(B)	Industries	Consent Fee (Rs.) (for Five years)
(i)	Industrial units having an investment up to 25 Lakhs	9000
(ii)	Industrial units having an investment more than 25 Lakhs but up to 5 crore	35000
(iii)	Industrial units having an investment more than 5 crore but up to 10 crore	60000
(iv)	Industrial units having an investment more than 10 crore but up to 50 crore	90000
(v)	Industrial units having an investment more than 50 crore	225000

Comments

- (1) The capital investment of the Industries specified in the schedule includes all investments which are made in fixed assets like land, building, plants and machinery.

- (2) Application for consent, without consent fee, as indicated in the aforesaid schedule shall not be accepted by the Board.
- (3) The consent fee shall be paid through Bank Draft drawn in favour of the Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board payable at Patna.

This notification shall come in to force from the date of its publication in the Bihar Official Gazette.

By order of the Governor of Bihar,
RATNESH JHA,
Deputy Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 285-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>